



SEC/48/2017-63

May 27, 2024

| | |
|--|---|
| The Manager Compliance Department BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Tower Dalal Street Mumbai – 400001 | The Manager Compliance Department The National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai – 400051 |
| Scrip Code/ Symbol: <u>540678/COCHINSHIP</u> | |

Dear Sir/Madam,

Subject: Copies of Newspaper Advertisement - Audited Consolidated Financial Results

1. We hereby enclose copies of newspaper advertisement published regarding extract of the audited consolidated financial results for the quarter and year ended March 31, 2024.
2. This is for your information and records.

For Cochin Shipyard Limited



SOLAR INDUSTRIES INDIA LIMITED
 CIN: L74999MH1995PLC085878
 Registered Office: "Solar" House, 14, Kachimel, Amravati Road, Nagpur - 440023, Maharashtra.
 Phone: 0712-6634567/6, Fax: 0712-6634578/79
 E-mail: investor.relations@solargroup.com
 Website: www.solargroup.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

The Members of the Company are hereby informed that pursuant to the provisions of Sections 110, 108 of the Companies Act, 2013 ("Act") and other applicable provisions, if any, of the Act read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules"), as amended from time to time, along with the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No.22/2020 dated June 15, 2020, General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021, General Circular No. 20/2021 dated December 8, 2021, General Circular No. 03/2022 dated May 5, 2022, General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 and with other relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (Collectively referred to as "MCA Circulars"), Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India, Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), and other applicable laws and regulations (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force).

The Company seeks the approval of the Members for the Special Business by way of Special Resolution as set out in the Postal Ballot Notice dated **May 16, 2024** along with explanatory statement by way of electronic means (remote e-voting) only.

The electronic copies of Postal Ballot Notice along with explanatory statements has been dispatched on **May 24, 2024** to the Members of the Company whose names appear on the Register of Members/List of Beneficial Owners maintained by the Depository as on **Friday, May 17, 2024 ('Cut-off Date')**. In light of the MCA Circulars, Physical copies of the Postal Ballot Notice along with postal ballot forms and pre-paid business reply envelope are not being sent to the Members.

The Postal Ballot Notice is available on the website of the Company www.solargroup.com, on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com and on the website of the stock exchanges where the equity shares of the Company are listed i.e. National Stock Exchange of India Limited www.nseindia.com and BSE Limited www.bseindia.com.

The communication of the assent or dissent of the Members would take place through the remote e-voting system only. The voting rights of the Members shall be in proportion to their equity shares in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date. A person who is not a Member on the cut-off date shall treat this Notice for information purposes only.

In compliance with the provisions of Sections 108 and 110 of the Act and Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of SEBI Listing Regulations, the Company is pleased to provide voting by electronic means ("remote e-voting") facility to all its Members to enable them to cast their votes using electronic voting system, provided by National Securities Depository Limited ("NSDL").

The remote e-voting period commences from **Monday, May 27, 2024 at 9:00 a.m. (IST)** and concludes on **Tuesday, June 25, 2024 at 5:00 p.m. (IST)**. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently or cast vote again.

The Board of Directors of the Company has appointed CS Tushar Pahade (FCS No.: 7784 & COP No.: 8576) Proprietor of M/s T.S. Pahade & Associates, Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the postal ballot process in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer will submit his report to the Chairman or any authorised person of the Company and the results of the Postal Ballot will be announced on or before **Thursday, June 27, 2024**. The said results would be displayed at the registered office of the Company and intimated to the Stock Exchanges where the Equity shares of the Company are listed. Additionally the results would be uploaded on the website of the Company i.e., www.solargroup.com and of NSDL i.e., www.evoting.nsdl.com.

The Resolution, if passed by requisite majority, will be deemed to be passed on the last date of the voting period i.e. **Tuesday, June 25, 2024**.

In case of any queries or issues regarding remote e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and remote e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no. 022-4886 7000 or send a request to Ms. Prajakta Pawale, Executive at evoting@nsdl.co.in during the working hours on all working days.

For Solar Industries India Limited
 Sd/-
(Khusboo Pasari)
 Company Secretary & Compliance Officer
 Membership No. - F7347

Place : Nagpur
 Date : May 24, 2024


Hindustan Unilever Limited
 Registered Office: Unilever House, B. D. Sawant Marg, Chakala, Andheri (East), Mumbai - 400 099.
 CIN: L15140MH1933PLC002030, Web: www.hul.co.in, Email: levercare.shareholder@unilever.com,
 Tel: +91 22 5043 2791 / 5043 2792

NOTICE OF 91ST ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE INFORMATION

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 91st Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through Video Conference (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) on Friday, 21st June, 2024 at 2.00 P.M. (IST). The venue of the Meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company i.e. Unilever House, B. D. Sawant Marg, Chakala, Andheri (East), Mumbai - 400 099.

In accordance with General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, and subsequent circulars issued in this regard, the latest being Circular No. 09/2023 dated 25th September, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Circular No. SEBI/HO/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January, 2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 7th October, 2023, issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), the Notice of 91st AGM and Integrated Annual Report including the Audited Financial Statements for the Financial Year 2023-24 have been sent in electronic mode to Members whose e-mail IDs are registered with the Company or the Depository Participant(s). The electronic dispatch of Annual Report to Members has been completed on Wednesday, 22nd May, 2024. The copy of the Notice of 91st AGM and Integrated Annual Report is also available on the Company's website www.hul.co.in. The documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM shall be available for inspection as per the procedure of provided in point no. 11 of the Notice of AGM.

Instructions for Remote E-voting and E-voting during AGM:

- Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide the facility to Members to exercise their right to vote by electronic means on resolutions proposed to be passed at AGM. Members holding shares either in physical form or dematerialised form, as on Friday, 14th June, 2024 (cut-off date), shall cast their vote electronically through electronic voting system (remote e-voting) of NSDL at <https://www.evoting.nsdl.com/>. Only those Members whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting. All the Members are hereby informed that the Ordinary and Special Business, as set out in Notice of 91st AGM will be transacted through voting by electronic means only.
- The remote e-voting period will commence at 9.00 A.M. (IST) on Sunday, 16th June, 2024 and will end at 5.00 P.M. (IST) on Thursday, 20th June, 2024. The remote e-voting module shall be disabled for voting after 5.00 P.M. (IST) on Thursday, 20th June, 2024.
- Once the vote on a resolution is cast by the Member, the member cannot modify it subsequently.
- Members, who have acquired shares after sending the Integrated Annual Report through electronic means and before the cut-off date, may obtain the USER ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or levercare.shareholder@unilever.com. However, if a Member is already registered with NSDL for remote e-voting, then the Member may use their existing USER ID and Password, and cast their vote.
- Members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to cast their vote through e-voting during the AGM. Members who have voted through remote e-voting shall be eligible to attend the AGM, however, they shall not be eligible to vote at the meeting.
- The procedure for e-voting is available in the Notice of the 91st AGM as well as in the e-mail sent to the Members by NSDL alongwith the Notice of 91st AGM and Integrated Annual Report. In case of any queries / grievances, please refer to the 'Frequently Asked Questions' (FAQs) for Members and 'e-voting user manual' for Members available in the downloads section of the e-voting website of NSDL <https://www.evoting.nsdl.com/>. Members who need assistance before or during the AGM with use of technology, can
 - Send a request at evoting@nsdl.com or call on 022-4886 7000 / 022-2499 7000;
 - Contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at the designated email ID: evoting@nsdl.com
- The Notice of AGM is available on the Company's website www.hul.co.in, on the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com, and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and NSDL at www.evoting.nsdl.com.
- The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 15th June, 2024 to Friday, 21st June, 2024 (both days inclusive).
- The Company has appointed Mr. S. N. Ananthasubramanian, Practicing Company Secretary (FCS: 4206 and CP No. 1774), or failing him Mr. S.N. Viswanathan (ACS: 61955 and CP No. 24335), to act as the Scrutinizer, to scrutinise the entire e-voting process in a fair and transparent manner.

| Manner of registering / updating email addresses | Manner of joining the AGM | TDS on Dividend |
|--|---|---|
| Members holding shares in physical form and who have not updated their e-mail addresses with the Company are requested to update their e-mail addresses by sending in duly filled and signed Form ISR-1 (Form for registering PAN, KYC details or changes/ updation thereof), to the Registrar and Share Transfer Agent of the Company - KFin Technologies Limited at Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India - 500 032 or by email to inward.ris@kfinetech.com from their registered email ID | Members may attend the AGM through VC / OAVM through the NSDL e-voting system at www.evoting.nsdl.com | Members may note that as per the Income-tax Act, 1961, dividend income is taxable in the hands of the Members and the Company is required to deduct tax at source (TDS) from dividend paid to the Members at rates prescribed in the Income Tax Act, 1961. Members are requested to submit the documents in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 at https://ris.kfinetech.com/form15 |

For Hindustan Unilever Limited
 Dev Bajpai
 Executive Director, Legal & Corporate Affairs
 and Company Secretary
 DIN: 00050516 / FCS No: 3354

Date: 25th May, 2024
 Place: Mumbai

CONCOR CORPORATION OF INDIA LTD.
 (An Navratna Undertaking of Govt. of India)
 Area-II Office, NSIC, New MIDCP Building, Okhla Industrial Estate, Delhi-110020

Public Auction / Tender Notice

Disposal of Uncleared / Unclaimed Cargo Through E-Auction

CONCOR shall be organizing auctions of container/goods (as per CBIC extant guidelines for EXIM) at the various terminals of Area-II through e-auction on **04.06.2024 (Tuesday)** on "AS IS WHERE IS" and "NO COMPLAINT BASIS". M/s MSTC is organizing an e-auction on behalf of CONCOR and for full details with auction terms and conditions, please log on to www.concorindia.co.in & www.mstccommerce.com. All concerned whose containers / goods are lying uncleared / unclaimed and falling in the said list uploaded on the website because of any dispute, stay by court / tribunal / others or any such reason may accordingly inform the Executive Director of Area-II / CONCOR, as well as Commissioner of Customs of the concerned locations within 07 (Seven) days of this notice, failing which the goods will be auctioned without any further notice.

Ref: CON/A-II/AUJF/Auction/2024-25/01 Executive Director, Area-II

KEC
 An IRPG Company
KEC INTERNATIONAL LIMITED
 CIN: L45200MH2005PLC152061
 Registered Office: RPG House, 463, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400030. Tel. No.: 022-66670200; Fax: 022-66670287
 Website: www.kecrgp.com; Email: investorpoint@kecrgp.com

NOTICE
TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF) ACCOUNT

Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as notified and amended from time to time ("the IEPF Rules"), the Company is mandated to transfer the shares of those shareholders who have not claimed their dividends for 7 (Seven) or more consecutive years to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account ("IEPF Account"). Further, Notice is also given to those shareholders whose shares were transferred to "Unclaimed Suspense Account" of the Company ("Company's Suspense Account") in accordance with erstwhile Clause 5A of the Listing Agreement / Regulation 39(4) read with Schedule VI of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, post subdivision of each equity share of face value of Rs. 10/- each into 5 equity shares of Rs. 2/- each having remained unclaimed.

In terms of the IEPF Rules, the shares of those shareholders who have not claimed their dividend for 7 (Seven) or more consecutive years and also of those shareholders whose shares are lying in the Company's Suspense Account and the dividend thereon have not been claimed for 7 (Seven) or more consecutive years (together referred to as "Concerned Shareholders"), shall be liable to be transferred to IEPF Account.

In compliance with the requirements set out in the IEPF Rules, the Company has sent individual communication to all the Concerned Shareholders at their address available with the Company, whose share(s) are liable to be transferred to IEPF Account.

The details of such shareholders and their shares due for transfer to IEPF Account have been uploaded on the Company's website i.e. www.kecrgp.com under 'Investors' Tab in Shareholder's Information section. The shareholders are requested to refer and verify the details uploaded on the website for the shares liable to be transferred to the IEPF Account and claim their dividend entitlements from FY 2016-17 till date, by making an application and sending it to the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Company, Link Intime India Private Limited, C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083, Tel. No.: +918108116767, Fax No. 022-49186060, Email id: iepf.shares@linkintime.co.in, on or before Tuesday, August 27, 2024.

The Concerned Shareholders, holding such shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF Account, may note that the Company would be issuing new share certificate(s) in lieu of original share certificate(s) held by them for transfer to the IEPF Account and the original share certificate(s) held by the shareholders shall stand cancelled and be deemed non-negotiable. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of new share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to the IEPF Account pursuant to the IEPF Rules. In respect of shares held by the Concerned Shareholders in dematerialized form, the Company will initiate corporate action with respective Depositories to transfer these shares to IEPF Account.

In case the Company does not receive any communication from the Concerned Shareholders by Tuesday, August 27, 2024, the Company shall, as per the requirements of the IEPF Rules, transfer your shares to IEPF Account as per the procedure stipulated in the IEPF Rules, without any further notice.

Shareholders may also note that both the unclaimed dividends and shares, including all benefits accruing on such shares, if any, once transferred to IEPF can be claimed back from IEPF Authority after following the procedure prescribed under the IEPF Rules. The Concerned Shareholders may note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF Authority.

In case you need any further information / clarification or assistance, please write back to the RTA at its E-mail id: iepf.shares@linkintime.co.in or the Secretarial department of the Company at its E-mail id: investorpoint@kecrgp.com

For KEC International Limited
 Sd/-
Rajeev Aggarwal
 Chief Financial Officer

Place : Mumbai
 Date : May 24, 2024

VTM LIMITED
 Regd. Office: Sulakarai, Virudhunagar CIN: L17111TN1946PLC003270, Website: www.vtmill.com
 Statement of Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2024 Rs in Lakhs

| Sl. No. | Particulars | Quarter ended | Quarter ended | Corresponding | Year ended | Previous |
|---------|--|----------------|-------------------|---|----------------|---------------------------|
| | | March 31, 2024 | December 31, 2023 | quarter of previous year ended March 31, 2023 | March 31, 2024 | year ended March 31, 2023 |
| | | (Audited) | (Un-Audited) | (Audited) | (Audited) | (Audited) |
| 1 | Total Income from Operations | 6,528.00 | 5,250.91 | 5,496.05 | 21,527.63 | 21,450.62 |
| 2 | Net Profit/(Loss) for the period (before tax and exceptional items) | 374.83 | 600.24 | 369.60 | 2,346.10 | 1,232.25 |
| 3 | Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional items) | 374.83 | 600.24 | 369.60 | 2,346.10 | 1,232.25 |
| 4 | Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional items) | 352.47 | 461.09 | 281.50 | 1,829.19 | 913.83 |
| 5 | Other comprehensive income (net of tax) | 25.30 | 102.91 | 133.19 | 332.94 | 533.68 |
| 6 | Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)) | 377.77 | 564.00 | 414.69 | 2,162.13 | 1,447.51 |
| 7 | Equity Share Capital | 402.28 | 402.28 | 402.28 | 402.28 | 402.28 |
| 8 | Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year | 25,898.83 | NA | NA | 25,898.83 | 24,118.86 |
| 9 | Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (for continuing and discontinued operations) | 0.88 | 1.15 | 0.70 | 4.55 | 2.27 |
| | a. Basic | 0.88 | 1.15 | 0.70 | 4.55 | 2.27 |
| | b. Diluted | 0.88 | 1.15 | 0.70 | 4.55 | 2.27 |

Notes: 1. The above results for the quarter and year ended March 31, 2024 as reviewed and recommended by the Audit committee of the Board, has been approved by the Board of Directors at its meeting held on May 23, 2024. The statutory auditors of the Company have expressed an unmodified audit opinion on the above results. 2. The above is an extract of the detailed format of the audited financial results for the quarter and year ended March 31, 2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Obligations Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2024 are available on the website of the BSE Limited i.e. www.bseindia.com, on the Stock Exchange where the Company's shares are listed and on the website of the Company i.e. www.vtmill.com

Place: Kappalur, Madurai
 Date : 23.05.2024

for VTM Limited
K. Thiagarajan
 Chairman & Managing Director

COCHIN SHIPYARD LIMITED
 Registered Office: Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi - 682015, Ph: 0484 2501306, Fax: 0484 2370897,
 Website: www.cochinshipyard.in CIN: L63032KL1972GOI002414

EXTRACT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2024

(₹ in lakhs)

| Sl. No. | Particulars | Consolidated | | | |
|----------------|--|---------------|------------|------------|------------|
| | | Quarter ended | | Year Ended | |
| | | 31.03.2024 | 31.03.2023 | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
| Audited | | | | | |
| 1 | Total Income from Operations | 136616.75 | 67132.13 | 414063.51 | 257156.73 |
| 2 | Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extra ordinary items) | 34232.25 | -523.96 | 107093.76 | 35662.35 |
| 3 | Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extra ordinary items) | 34232.25 | 5657.39 | 107093.76 | 41843.70 |
| 4 | Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extra ordinary items) | 25888.10 | 3933.63 | 78327.78 | 30470.91 |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)) | 28169.63 | 2891.70 | 81246.36 | 26795.96 |
| 6 | Paid up Equity share capital | 13154.04 | 13154.04 | 13154.04 | 13154.04 |
| 7 | Reserves (excluding Revaluation Reserve) | 487179.63 | 429610.60 | 487179.63 | 429610.60 |
| 8 | Securities Premium Account | 93151.90 | 93151.96 | 93151.90 | 93151.96 |
| 9 | Net worth | 500333.67 | 442764.64 | 500333.67 | 442764.64 |
| 10 | Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt | 2300.00 | 12300.00 | 2300.00 | 12300.00 |
| 11 | Debt Equity Ratio | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 12 | Earnings Per Share (of ₹5 each) (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted (₹) | 9.84 | 1.50 | 29.77 | 11.58 |
| 13 | Capital Redemption Reserve | 12353.76 | 12353.76 | 12353.76 | 12353.76 |
| 14 | Debtenture Redemption Reserve | 100.00 | 1668.44 | 100.00 | 1668.44 |
| 15 | Debt Service Coverage Ratio | 22.67 | 6.06 | 11.89 | 5.59 |
| 16 | Interest Service Coverage Ratio | 27.75 | 6.85 | 14.74 | 6.20 |

Notes:
 • Standalone financial information of the Company, pursuant to Regulation 47(1)(b) of the SEBI (LODR) Regulations is as follows:
 (₹ in lakhs)

| Sl. No. | Particulars | Quarter ended | | Year Ended | |
|----------------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | 31.03.2024 | 31.03.2023 | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
| Audited | | | | | |
| 1 | Turnover | 122549.30 | 57696.95 | 364527.97 | 233045.88 |
| 2 | Profit/(Loss) before Tax | 34547.87 | 5830.86 | 109362.40 | 44850.66 |
| 3 | Profit/(Loss) after Tax | 26467.11 | 4734.42 | 81310.34 | 33448.86 |

• The above is an extract of detailed format of audited consolidated financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 & 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results are available in the Company's website (www.cochinshipyard.in) and in the websites of the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com).

• For the other line items referred in Regulation 52(4) of the LODR Regulations, pertinent disclosures have been made to National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited and can be accessed in their websites www.nseindia.com and www.bseindia.com. The above audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2024 was reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at the meetings held on May 24, 2024.

• The Board of Directors of the Company has recommended a final dividend of Rs 2.25 per equity share of face value of Rs 5/- each at the Board meeting held on May 24, 2024. This is in addition to the two interim dividends of Rs.8/- per equity share of face value of Rs.10/- each and Rs.3.50 per equity share of face value of Rs.5/- each, which were declared by the Board of Directors at their meetings held on November 07, 2023 and January 30, 2024, respectively.

For Cochin Shipyard Limited
 Sd/-
Chairman & Managing Director

Place : Kochi
 Date : May 24, 2024
 Hindi version of this advertisement is published in the website (www.cochinshipyard.in) of CSL

KHADIM
KHADIM INDIA LIMITED
 Registered Office: 7th Floor, Tower C, DLF IT Park, 08 Major Arterial Road, Block -AF, New Town (Rajarhat) Kolkata -700156, West Bengal, India
 Website: www.khadims.com
 Tel No: +91 33 4009 0501; Fax No: +91 33 4009 0500
 e-mail: compliance@khadims.com
 CIN: L19129WB1981PLC034337

Extract of Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2024

(₹ in million)

| Sl. No. | Particulars | Standalone | | | Consolidated | | |
|---------|---|---------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 3 months ended 31st March, 2024 | 12 months ended 31st March, 2024 | Corresponding 3 months ended 31st March, 2023 | 3 months ended 31st March, 2024 | 12 months ended 31st March, 2024 | Corresponding 3 months ended 31st March, 2023 |
| 1. | Total Income from Operations | 1,436.36 | 6,149.04 | 1,592.08 | 1,436.36 | 6,149.04 | 1,592.08 |
| 2. | Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items) | 14.17 | 82.56 | 51.21 | 13.92 | 82.19 | 51.00 |
| 3. | Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items) | 14.17 | 82.56 | 51.21 | 13.92 | 82.19 | 51.00 |
| 4. | Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 10.51 | 63.16 | 43.11 | 10.25 | 62.78 | 42.90 |
| 5. | Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)) | 7.69 | 61.93 | 43.79 | 7.43 | 61.55 | 43.57 |
| 6. | Equity Share Capital | 181.34 | 181.34 | 179.70 | 181.34 | 181.34 | 179.70 |
| 7. | Reserves (excluding Revaluation Reserve) | | 2,216.44 | | | 2,214.73 | |
| 8. | Earnings per equity share (of ₹ 10/- each) (not annualised) | | | | | | |
| | 1. Basic (₹) | 0.58 | 3.51 | 2.40 | 0.57 | 3.49 | 2.39 |
| | 2. Diluted (₹) | 0.58 | 3.51 | 2.40 | 0.57 | 3.49 | 2.39 |

अदाणी के शेयरों में की तगड़ी कमाई

जीक्यूजी पार्टनर्स, कतर इन्वेस्टमेंट, आईएचसी की निवेश कीमत में हुआ काफी इजाफा

देव चटर्जी
मुंबई, 24 मई

अमेरिका की जीक्यूजी पार्टनर्स और सांवरिन फंड कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के अलावा अबु धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने अदाणी समूह के शेयरों में अपने निवेश पर तगड़ी कमाई की है। पिछले एक साल में अदाणी समूह की सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में हुए खास उछाल के कारण कमाई में इजाफा हुआ है।

हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद मार्च 2023 में जीक्यूजी पार्टनर्स ने अदाणी समूह की कंपनियों में 4.3 अरब डॉलर (35,774 करोड़ रुपये) का निवेश किया था और शुरुआत के बाद भाव के हिसाब से उसके निवेश की कीमत अब 9.76 अरब डॉलर (81,132 करोड़ रुपये) हो गई है। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने अदाणी ग्रीन एनर्जी में अगस्त 2023 में 923 रुपये प्रति शेयर भाव पर 4,300 करोड़ रुपये निवेश किए थे जिनकी वैल्यू अब 9,650 करोड़ रुपये हो गई है। शुरुआत में अदाणी ग्रीन का शेयर 1,925 रुपये पर बंद हुआ।

इसी तरह इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने शुरुआत में अदाणी एंटरप्राइजेज में साल 2022 में 2 अरब डॉलर निवेश किया था और पिछले साल अक्टूबर में उसने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 5 फीसदी कर ली थी। अब उसके निवेश की वैल्यू बढ़कर 2.8 अरब



निवेश की कीमत

■ 2023 में जीक्यूजी पार्टनर्स ने अदाणी समूह की कंपनियों में 35,774 करोड़ रुपये का निवेश किया था और अब उसके निवेश की कीमत 81,132 करोड़ रुपये हो गई है

■ कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने अदाणी ग्रीन एनर्जी में अगस्त 2023 में 4,300 करोड़ रुपये निवेश किए थे, जिनकी वैल्यू अब 9,650 करोड़ रुपये हो गई है

■ इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने दो चरणों में अदाणी एंटरप्राइजेज में 2 अरब डॉलर निवेश किया था और अब उसके निवेश की वैल्यू बढ़कर 2.8 अरब डॉलर हो गई है

डॉलर हो गई है। अदाणी एंटरप्राइजेज का शेयर शुरुआत में 3,385 रुपये पर बंद हुआ। शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की जनवरी 2023 में आई रिपोर्ट के बाद अदाणी समूह के शेयरों खासी गिरावट आई थी और इनमें तब सुधार हुआ जब प्रवर्तकों ने समूह की विभिन्न कंपनियों के शेयर जीक्यूजी पार्टनर्स

को बेचे और विभिन्न कंपनियों के कर्ज का समय से पहले भुगतान कर दिया और इस तरह से निवेशकों को अपने वित्तीय हालात के बारे में बताया। बाद में सेबी की जांच में भी हिंडनबर्ग के आरोपों में कुछ नहीं मिला। अदाणी समूह ने हिंडनबर्ग के सभी आरोपों से इनकार किया था।

अदाणी के शेयरों में बढ़ती फंड के चेरमैन व मुख्य निवेश अधिकारी राजीव जैन के कॉन्ट्रिब्यूशन डॉब की बड़ी सफलता मानी जा रही है। 23 साल के निवेश अनुभव के बाद जैन ने जून 2016 में अपनी फर्म का गठन किया था। उन्होंने वॉटोबेल ऐसेस मैनेजमेंट में उप-मुख्य कार्याधिकारी और मुख्य निवेश अधिकारी के तौर पर काम किया है। फोर्ब्स के मुताबिक, 56 वर्षीय जैन का नेटवर्थ (जिनका जन्म भारत में हुआ और जो 90 के दशक की शुरुआत में अमेरिका चले गए) का 4.6 अरब डॉलर होने का अनुमान है।

मीडिया को दिए साक्षात्कार में जैन ने कहा कि दुनिया भर में कुछ ही बड़े उभरते बाजार हैं और भारत उनमें से एक है। जैन ने एक टीवी चैनल को इस साल फवरी में बताया था कि पिछले पांच वर्षों में भारत ने सभी उभरते बाजारों में सबसे अच्छी आय वृद्धि में से एक दर्ज की है और मुझे लगता है कि आय में इस वृद्धि का पर्याप्त प्रसार नहीं हुआ है क्योंकि अंततः आय ही बाजार को आगे ले जाती है और जब कंपनियों की आय मजबूत हो तो बाजार उसका अनुसरण करता है।

पिछले साल जीक्यूजी पार्टनर्स ने आईटीसी, पतंजलि फूड्स और जीएमआर एयरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर के अलावा एयरटेल व वोडाफोन आइडिया में भी निवेश किया। इस संबंध में जानकारी के लिए शुरुआत में जीक्यूजी पार्टनर्स को भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं मिला।

आईपीओ की ऑडियो विजुअल जानकारी देना अनिवार्य

खुशबू तिवारी
मुंबई, 24 मई

निवेशकों को जागरूकता को लेकर एक कदम और आगे बढ़ाते हुए बाजार नियामक सेबी ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) पेश करने की योजना बना रही सभी कंपनियों को 10 मिनट का वीडियो जारी करने का निर्देश दिया है, जिसमें इश्यू से संबंधित अहम सूचनाएं शामिल हों।

नियामक ने यह पहल इसलिए की है ताकि निवेशकों को सार्वजनिक निर्गम की विशेषताओं व कंपनी के बारे में आसानी से समझ आ जाए।

दिशानिर्देश के मुताबिक, ऑडियो विजुअल में कंपनी के सभी कारोबार, प्रवर्तक, प्रबंधन, वित्तीय सूचना, लॉबित कानूनी मामले, जोखिम व अन्य जानकारी देनी होगी, जो सामान्य तौर पर विवरणिका के मसौदे (डीआरएचपी) में होती है।

सेबी ने कहा, ऑडियो विजुअल में शामिल की जाने वाली सामग्री निश्चित तौर पर तथ्यात्मक, बार-बार दोहराया नहीं जाने वाली, नॉन-प्रमोशनल हो और यह किसी भी तरह से गलत जानकारी देने वाला नहीं होना चाहिए। वीडियो इश्यू करने वाली कंपनी को वेबसाइट, सोशल मीडिया, एक्सप्लैनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया और व्यूआर कोड के जरिये पेशकश दस्तावेज में होनी चाहिए।

इसके अलावा निवेशकों को सलाह दी गई है कि वे इश्यू से संबंधित किसी अन्य सूचना पर भरोसा न करें, जो मीडिया प्लेटफॉर्म व फिनफ्यूएंस से पास उपलब्ध हो।

शुरु में यह वीडियो अंग्रेजी व हिंदी में उपलब्ध कराया जाएगा। यह दिशानिर्देश 1 जुलाई से डीआरएचपी जमा कराने वाली कंपनियों के लिए स्वैच्छिक होगा, लेकिन 1 अक्टूबर के बाद जमा कराए जाने वाले पेशकश दस्तावेज के लिए यह अनिवार्य होगा।

| GANESHA ECOSPHERE LIMITED | | | | | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| CIN : L51109UP1987PLC009090 | | | | | |
| Regd. Office : Raipur (Rania), Kalpi Road, Distt. Kanpur Dehat - 209304 (U.P.) | | | | | |
| E-mail : secretarial@ganeshaecosphere.com, Website : www.ganeshaecosphere.com | | | | | |
| Tel. No. 0512-2555505-06, +91 9198708383, Fax No. 0512-2555293 | | | | | |
| Extract of Audited Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2024 | | | | | |
| (₹ in Lakh) | | | | | |
| S. No. | Particulars | Quarter ended 31.03.2024 (Audited) | Quarter ended 31.03.2023 (Audited) | Year ended 31.03.2024 (Audited) | Year ended 31.03.2023 (Audited) |
| 1. | Total Income from Operations | 30,553.20 | 30,154.62 | 112,292.70 | 117,963.14 |
| 2. | Net Profit for the period before Tax | 3,059.61 | 2,168.68 | 5,890.89 | 9,497.46 |
| 3. | Net Profit for the period after tax# | 2,159.56 | 1,538.19 | 4,057.17 | 6,945.98 |
| 4. | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 2,145.57 | 1,571.77 | 4,073.70 | 6,981.84 |
| 5. | Equity Share Capital | 2,534.70 | 2,182.94 | 2,534.70 | 2,182.94 |
| 6. | Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year) | - | - | 102,676.85 | 61,605.46 |
| 7. | Earnings Per Share (of Rs.10/- each) | | | | |
| | - Basic (in Rs.): | 9.66* ^ | 7.06* ^ | 18.15 ^ | 31.88 ^ |
| | - Diluted (in Rs.): | 9.66* ^ | 7.06* ^ | 18.15 ^ | 31.88 ^ |
| | *Not annualised | | | | |

#The Group does not have any Exceptional and Extraordinary item to report for the above results.
^ Pursuant to the Ganesha Ecosphere Employees' Stock Option Scheme, 2021, Ganesha Employees' Welfare Trust is holding 39,194 equity shares of the Parent Company, which have been reduced while computing basic and diluted earnings per share.

Notes:

| 1. Additional Information on standalone financial results is as follows: | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| (₹ in Lakh) | | | | |
| Particulars | Quarter ended 31.03.2024 (Audited) | Quarter ended 31.03.2023 (Audited) | Year ended 31.03.2024 (Audited) | Year ended 31.03.2023 (Audited) |
| Revenue from Operations | 23,716.80 | 25,504.35 | 97,534.03 | 113,285.92 |
| Profit before Tax | 2,796.36 | 2,372.79 | 8,366.90 | 9,914.22 |
| Profit after Tax | 2,092.30 | 1,713.59 | 6,247.53 | 7,331.93 |

2. The Board has recommended dividend, subject to the approval of members at the forthcoming Annual General Meeting of the Company, of Rs. 3/- per share on Equity Shares of Rs. 10/- each of the Company, for the financial year 2023-24.
3. Figures for the quarter ended March 31, 2024 and March 31, 2023 represent the difference between the audited figures in respect of full financial year and the unaudited published figures of nine months ended December 31, 2023 and December 31, 2022 respectively.
4. The above is an extract of the detailed format of Audited Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Standalone and Consolidated Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website www.ganeshaecosphere.com.

For GANESHA ECOSPHERE LIMITED
Sd/-
(Shyam Sunder Sharma)
Chairman
DIN:00530921

Place: Kanpur
Date: 23.05.2024



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोची - 6820 15
दूरभाष : 0484 250 1306, फैक्स : 0484 2370897,
वेबसाइट : www.cochinshipyard.in CIN: L63032KL1972G0I002414

मार्च 31, 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय परिणामों का सार

| (रुपए लाख में) | | | | | |
|---------------------|--|--------------------------|------------|------------------------|------------|
| क्र. सं. | विवरण | समेकित | | | |
| | | समाप्त तिमाही 31.03.2024 | 31.03.2023 | समाप्त वर्ष 31.03.2024 | 31.03.2023 |
| लेखापरीक्षित | | | | | |
| 1 | प्रचालनों से कुल आय | 136616.75 | 67132.13 | 414063.51 | 257156.73 |
| 2 | अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि) (कर पूर्व, असामान्य और/ या असाधारण मदें) | 34232.25 | -523.96 | 107093.76 | 35662.35 |
| 3 | अवधि के लिए कर पूर्व निवल लाभ / (हानि) (असामान्य और/ या असाधारण मद के बाद) | 34232.25 | 5657.39 | 107093.76 | 41843.70 |
| 4 | अवधि के लिए कर के बाद निवल लाभ / (हानि) (असामान्य और / या असाधारण मदों के बाद) | 25888.10 | 3933.63 | 78327.78 | 30470.91 |
| 5 | अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए शामिल लाभ / (हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)) | 28169.63 | 2891.70 | 81246.36 | 26795.96 |
| 6 | प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी | 13154.04 | 13154.04 | 13154.04 | 13154.04 |
| 7 | आरक्षित निधि (पुनर्मुल्यांकन आरक्षित निधि को छोड़कर) | 487179.63 | 429610.60 | 487179.63 | 429610.60 |
| 8 | प्रतिभूति प्रीमियम लेखा | 93151.90 | 93151.96 | 93151.90 | 93151.96 |
| 9 | निवल मूल्य | 500333.67 | 442764.64 | 500333.67 | 442764.64 |
| 10 | प्रदत्त ऋण पूंजी / बकाया ऋण | 2300.00 | 12300.00 | 2300.00 | 12300.00 |
| 11 | ऋण इक्विटी अनुपात | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 12 | प्रति शेयर आय (प्रत्येक 5 रुपये के) (चाहू और बंद किए प्रचालनों के लिए) मूल एवं सुस्त (₹.) | 9.84 | 1.50 | 29.77 | 11.58 |
| 13 | पूंजी प्रतिदान आरक्षित निधि | 12353.76 | 12353.76 | 12353.76 | 12353.76 |
| 14 | ऋण-पत्र प्रतिदान आरक्षित निधि | 100.00 | 1668.44 | 100.00 | 1668.44 |
| 15 | ऋण सेवा कवरेज अनुपात | 22.67 | 6.06 | 11.89 | 5.59 |
| 16 | व्याज सेवा कवरेज अनुपात | 27.75 | 6.85 | 14.74 | 6.20 |

टिप्पणियाँ:

• सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 47 (1) (बी) के अनुसार कंपनी की स्टैंडअलोन वित्तीय जानकारी निम्नानुसार है: (रुपए लाख में)

| क्र. सं. | विवरण | समाप्त तिमाही | | | |
|---------------------|------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | 31.03.2024 | 31.03.2023 | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
| लेखापरीक्षित | | | | | |
| 1 | कारोबार | 122549.30 | 57696.95 | 364527.97 | 233045.88 |
| 2 | कर पूर्व लाभ / (हानि) | 34547.87 | 5830.86 | 109362.40 | 44850.66 |
| 3 | कर के बाद लाभ / (हानि) | 26467.11 | 4734.42 | 81310.34 | 33448.86 |

• उपर्युक्त, सेबी (पूरीबद्ध देयताएं और अन्य प्रकटीकरण अधिनियम) विनियम, 2015 को विनियम 33 और 52 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दावर लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप कंपनी की वेबसाइट www.cochinshipyard.in में और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com में उपलब्ध है।

• एलओडीआर विनियमों के विनियम 52(4) में संदर्भित अन्य पंक्ति में दिए गए, प्रारंभिक खुलासे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड को किए गए हैं और इन्हें उनकी वेबसाइट www.nseindia.com और www.bseindia.com पर देखा जा सकता है। मार्च 31, 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए उपरोक्त लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है और मई 24, 2024 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई।

• कंपनी के निदेशक मंडल ने मई 24, 2024 को आयोजित बोर्ड बैठक में 5/- रुपये के अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 2.25 रुपये के अंतरिम लाभांश को सिफारिश की है। यह 10/- रुपये के अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयर पर 8/- रुपये और प्रत्येक 5 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 3.50 रुपये के दो अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है, जो निदेशक मंडल द्वारा क्रमशः नवंबर 07, 2023 और जनवरी 30, 2024 को आयोजित बैठकों में घोषित किए गए थे।

स्थान : कोचीन
दिनांक : मई 24, 2024
कृते कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
ह/-
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

बीएसई सेंसेक्स में विप्रो की जगह अदाणी पोर्ट्स

समी मोडक
मुंबई, 24 मई

अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन (एसईजेड) को 30 शेयर वाले सेंसेक्स में विप्रो की जगह शामिल किया जाएगा। सेंसेक्स को ट्रैक करने वाले एशिया इंडेक्स ने शुरुआत को एक सूचना में यह जानकारी दी है। यह पहली बार है जब गौतम अदाणी के स्वामित्व वाली किसी कंपनी को सेंसेक्स सूचकांक में शामिल किया जाएगा। सूचकांक में यह बदलाव 24 जून से प्रभावी होगा।

इस बदलाव को लेकर आश्चर्य जताया गया है क्योंकि कई विश्लेषकों का अनुमान था कि अदाणी समूह की प्रमुख कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज (ईएल) को ऊंचे बाजार पूंजीकरण की वजह से सूचकांक में शामिल किया जाएगा। अदाणी पोर्ट्स एंड एसईजेड का बाजार पूंजीकरण 3.06 लाख करोड़ रुपये है, जबकि ईएल का मूल्यांकन 3.86 लाख करोड़ रुपये है। हालांकि एक्सचेंज किसी इंडेक्स बदलाव की गणना के लिए प्री फ्लोट बाजार पूंजीकरण पर विचार करते हैं। अदाणी पोर्ट्स की प्रवर्तक शेयरधारिता 65.9 प्रतिशत है, जब कि ईएल की 72.6 प्रतिशत है।

विश्लेषकों का कहना है कि अदाणी पोर्ट्स को सेंसेक्स में 1.2 प्रतिशत भारांक मिल सकता है। नुवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटीटिव रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार उसके शामिल होने से अदाणी पोर्ट्स के शेयरों



में करीब 2,100 करोड़ रुपये का निवेश आएगा, जबकि विप्रो में करीब 1,400 करोड़ रुपये की बिकवाली देखी जा सकती है। सेंसेक्स को करीब 1.8 लाख करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों वाले पैसिव फंड ट्रैक करते हैं। अदाणी पोर्ट्स एंड एसईजेड का शेयर 1.9 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,416 रुपये पर बंद हुआ जबकि विप्रो 0.5 प्रतिशत गिरकर

463.5 रुपये पर बंद हुआ। अदाणी पोर्ट्स इस समय 28.4 गुना के 12 महीने आगामी पीई अनुपात और 4.9 गुना के पीबी अनुपात पर कारोबार कर रहा है। तुलना करें तो सेंसेक्स का पीई और पीबी क्रम से 20.3 गुना और 3.2 गुना पर है।

सेंसेक्स के अलावा एशिया इंडेक्स ने चार अन्य सूचकांकों में भी बदलाव की घोषणा की है। उसने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और आईडीएफसी फ्रंट बैंक को जगह देकर एचएसबीसी बैंक और केनरा बैंक को एंसेंटीपी बीएसई बैंकेक्स में शामिल किया है। ट्रेड को एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स में दिवजी लैबोरेटरीज की जगह मिलेगी।

इस बीच, एस एंड पी बीएसई 100 सूचकांक में आरईसी, एचडीएफसी एएमसी, केनरा बैंक, कमिंस इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक को पेज इंडस्ट्रीज, एसबीआई काइड्स, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, जुबिलेंट फूडवर्क्स और जी एंटरटेनमेंट की जगह शामिल किया जाएगा।

एजीआर बकाया पर राहत की उम्मीद में ब्रोकरेज ने वोडा आइडिया का नया लक्ष्य दिया

बीएस संवाददाता
मुंबई, 24 मई

वैश्विक ब्रोकरेज फर्म यूबीएस ने एक रिपोर्ट में कहा है कि वोडा आइडिया को सरकारी बकाए पर राहत की संभावना और दूरसंचार शुल्क में बढ़ती से इसकी शेयर कीमतों में 70-80 फीसदी के इजाफे की उम्मीद है। ब्रोकरेज ने इस शेयर को खरीदने की सलाह देते हुए इसके लिए 18 रुपये का लक्ष्य दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह मानते हुए कि समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया को पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा, हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यू बढ़कर 24 रुपये प्रति शेयर हो सकता है, जो एजीआर की माफ के बिना 12 रुपये है। 18 रुपये की लक्षित कीमत एजीआर बकाया माफ करने की 50 फीसदी संभावना पर आधारित है।

यूबीएस के अपप्रैड से वोडा आइडिया का शेयर उछल गया और यह शुरुआत में एंसेंटीपी बीएसई पर 7.5 फीसदी चढ़कर 15.1 रुपये पर बंद हुआ। ब्रोकरेज को लगता है कि वोडा आइडिया का एजीआर बकाया का

50 से 75 फीसदी माफ किया जा सकता है। दूरसंचार कंपनी को अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 के बीच सरकार को 12,000 करोड़ रुपये चुकाने हैं जिसमें मूलभूत और व्याज शामिल है। वित्त वर्ष 27 से वित्त वर्ष 31 तक उसे पांच साल तक सालाना 43,000 करोड़ रुपये चुकाने की दरकार होगी।

यूबीएस ने कहा कि हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से एजीआर में कमी या सरकार की तरफ से इक्विटी में तब्दीली, रोक आदि की काफी संभावना है, खास तौर से सरकार के इस इरादे के बाद कि निजी क्षेत्र में तीन दूरसंचार कंपनियों चलती हुई होनी चाहिए।

ब्रोकरेज ने एयरटेल और इंडस टावर्स पर तटस्थ रुख दोहराया और लक्षित कीमत बढ़ा दी। अब एयरटेल के लिए लक्षित कीमत 1,430 रुपये जबकि इंडस टावर्स के लिए 355 रुपये तय की गई है। यूबीएस ने कहा कि मुख्य जोखिम यह है कि अगर एजीआर/स्पेकर बकाया पर राहत नहीं मिली तो कंपनी की पूंजीगत खर्च योजना और बाजार हिस्सेदारी शायद ही बढ़ पाएगी।

KHADIM KHADIM INDIA LIMITED

Registered Office: 7th Floor, Tower C, DLF IT Park, 08 Major Arterial Road, Block -AF, New Town (Rajarhat) Kolkata -700156, West Bengal, India
Website: www.khadims.com

Tel No: +91 33 4009 0501; Fax No: +91 33 4009 0500
e-mail: compliance@khadims.com
CIN: L19129WB1981PLC034337

Extract of Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2024

(₹ in million)

| Sl. No. | Particulars | Standalone | | | Consolidated | | |
|---------|---|---------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 3 months ended 31st March, 2024 | 12 months ended 31st March, 2024 | Corresponding 3 months ended 31st March, 2023 | 3 months ended 31st March, 2024 | 12 months ended 31st March, 2024 | Corresponding 3 months ended 31st March, 2023 |
| 1. | Total Income from Operations | 1,436.36 | 6,149.04 | 1,592.08 | 1,436.36 | 6,149.04 | 1,592.08 |
| 2. | Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items) | 14.17 | 82.56 | 51.21 | 13.92 | 82.19 | 51.00 |
| 3. | Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items) | 14.17 | 82.56 | 51.21 | 13.92 | 82.19 | 51.00 |
| 4. | Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 10.51 | 63.16 | 43.11 | 10.25 | 62.78 | 42.90 |
| 5. | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 7.69 | 61.93 | 43.79 | 7.43 | 61.55 | 43.57 |
| 6. | Equity Share Capital | 181.34 | 181.34 | 179.70 | 181.34 | 181.34 | 179.70 |
| 7. | Reserves (excluding Revaluation Reserve) | | 2,216.44 | | 2,214.73 | | |
| 8. | Earnings per equity share (of ₹ 10/- each) (not annualised) | | | | | | |
| | 1. Basic (₹) | 0.58 | 3.51 | 2.40 | 0.57 | 3.49 | 2.39 |
| | 2. Diluted (₹) | 0.58 | 3.51 | 2.40 | 0.57 | 3.49 | 2.39 |